

वॉल्यूम 9

नमस्कार DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट परिवार,

मैं आशा करती हूँ कि आप नये स्कूल वर्ष में अच्छी तरह से व्यवस्थित हो रहे हैं। हम जिले में अनेक अद्भुत कार्यक्रम और पहलें की जा रही हैं और मैं अपने साप्ताहिक समाचार-पत्र में उन उत्कृष्ट संसाधनों में से कुछ को आपके साथ साझा करने की आशा करती हूँ। कृपया इस समाचार-पत्र को अपने DeKalb काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट (DCSD) के परिवारों और मित्रजनों के साथ साझा करें और उन्हें इसकी सदस्यता लेने के लिए प्रोत्साहित करें:

[आपके अधीक्षक की ओर से एक संदेश।](#)

Region VI के साथ Field में

Field Day के लिए यात्राएं करना मेरे लिए एक सकारात्मक अनुभव रहा। हर एक दौरे में, मेरा आनन्दपूर्वक स्वागत किया गया और मैं उन कर्मचारियों से बहुत प्रेरित हुई जो पूरे मनोभाव से हमारे विद्यार्थियों और समुदाय की सेवा करते हैं। इस पिछले बुधवार को, Region VI में Mrs. Pamela Benford के साथ Field Day हुआ। मैंने Region VI के तीन गैर-पारंपरिक स्कूलों का दौरा किया जहां मैं Region VI के कोलंबिया संकुल, टॉवर्स संकुल, और गैर-पारंपरिक संकुल के सभी 16 प्राचार्यों से मिली। मेरी भेंट Region VI के लघु-कैबिनेट के सदस्यों से भी हुई। Mrs. Benford और Region VI का उनकी प्रतिबद्धता और अद्भुत कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

Region VI के विजेता अपनी सफलता की डगर पर हैं, और जश्न मनाने के कुछ और कारण नीचे दिये जा रहे हैं:

• शैक्षणिक

- Region VI के 85% स्कूलों ने पिछली CCRPI रिपोर्टिंग में वृद्धि का अनुभव किया।
- Region VI में तीन स्कूलों ने उनके समग्र CCRPI स्कोर में दो-अंकीय वृद्धि को दर्शाया: Canby Lane ES, Rowland ES, Columbia MS
- Region VI के 5 स्कूलों ने “Beat the Odds” हासिल किया: Canby Lane ES, Columbia MS, Peachcrest ES, Rowland ES, Wadsworth Magnet
- Wadsworth Magnet (6वें-ग्रेड की गणित) ने विशिष्ट शिक्षार्थियों की प्रतिशतता को 24.7% से बढ़ाकर 75% किया और यह एक 5-स्टार क्लाइमेट रेटिंग वाला AdvancED STEM प्रमाणित स्कूल है।

- **डिवाइस वितरण** - ग्रेड 1 से 12 में अनुरोध करने वाले 98% विद्यार्थियों ने डिवाइसों को प्राप्त किया।
- **पारिवारिक पहुंच** - Region VI के अनेक स्कूलों ने उन विद्यार्थियों को डिवाइसों / अनुदेशात्मक संसाधनों को वितरित किया जिनके परिवारों के पास कोई परिवहन सुविधा नहीं है।

वित्त के साथ Division Popin का दौरा - लक्ष्य III कर्मचारियों की प्रभावशीलता

मुझे वित्त प्रभाग का दौरा करने का गौरव प्राप्त हुआ, जिसमें क्रय एवं अनुबंध, देय लेखा, लेखा एवं पूंजीगत परिसंपत्तियां, बजट एवं आवंटन, जोखिम प्रबंधन, और स्कूल पोषाहार सेवाएं सम्मिलित हैं। यह प्रभाग (division) वह अति महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां हमारे जिले द्वारा सर्वोत्तम दक्षता के साथ परिचालन करते हुए और विद्यार्थी-उपलब्धि के इर्द-गिर्द संसाधनों को संरेखित करते हुए राजकोषीय उत्तरदायित्व, लेखा देयता, और ग्राहक सेवाओं पर जोर दिया जाता है।

मैं Ms. Masana Mailliard के नेतृत्व की और हमारे अंतरिम मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में पदोन्नत होकर सेवाएं प्रदान करने की सराहना करती हूं। वित्त ने COVID-19 के कारण हुई पूरी कामबंदी के दौरान सहज रूप से कार्य किया और मैं उनके कठोर परिश्रम के लिए आभारी हूं। उस टीम से भेंट करके प्रसन्नता हुई, जिसने एक बजट विकास का संक्षिप्त विवरण और एक नयी प्रक्रिया को कार्यान्वित करने की योजना को उपलब्ध करवाया जो एक शून्य-आधारित उपागम को प्रयोग में लाती है।

मुझे यकीन है कि आप में से अनेक लोग श्रम दिवस के सप्ताहांत की प्रतीक्षा कर रहे हैं और मैं आशा करती हूं कि आप अपने परिवारों का आनन्द लेने के लिए समय निकालेंगे। कृपया श्रम दिवस के पोषाहार कार्यक्रम और कर्बसाइड पिकअप के लिए खाद्य सुरक्षा युक्तियों पर और अधिक जानकारी के लिए नीचे देखें: साथ ही, मैंने सोशल मीडिया पर आपकी तस्वीरों और फीडबैक का आनन्द लिया और अनुरोध करती हूं कि आप अपने मजददार आभासी अधिगम (वर्चुअल लर्निंग) स्थानों और उन अद्भुत परिवारों, पालकों, और प्रतिपालकों को प्रकाशित करना जारी रखें जो साथ-साथ हमारे छात्रों का सहयोग/समर्थन कर रहे हैं। आभासी अधिगम (वर्चुअल लर्निंग) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक व्यक्तियों की सहभागिता / सहयोग की आवश्यकता होती है और मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि आप ऐसा करते हैं. आपका सप्ताहांत बहुत अच्छा हो!

आपकी #1 चीयरलीडर,

Mrs. Cheryl Watson-Harris, अधीक्षक